

This question paper contains 4 printed pages]

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. No. of Question Paper : 4163

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : Value Addition Course (VAC) (For Students of SOL only)

Semester : III

Duration : 2:30 Hours

Maximum Marks : 70

(Part A = 30 marks & Part B = 40 marks)

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : — Answers may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए; परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

This question paper has 2 parts and 9 questions in total.

Question No. 1 is compulsory.

Part A and Part B are compulsory.

All questions carry equal marks.

इस प्रश्न पत्र में 2 भाग और कुल 9 प्रश्न हैं।

प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है।

भाग 'अ' और भाग 'ब' अनिवार्य हैं।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

Part-A (भाग 'अ')

Attempt any *three* questions. Question No. 1 is compulsory.

किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है।

1. Write short notes on any *two* of the following :

- (a) Importance of Know Your Customer (KYC)
- (b) Financial Discipline
- (c) Gross Total Income.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) का महत्व
- (b) वित्तीय अनुशासन
- (c) सकल कुल आय।

2. What are the key objectives of tax planning ? How is tax planning different from tax evasion ?

कर नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं ? कर नियोजन, कर चोरी से किस प्रकार भिन्न है ?

3. Distinguish between savings and investments. Explain different types of investment options in India.

बचत और निवेश के बीच अंतर बताइए। भारत में विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों की व्याख्या कीजिए।

4. Mr. Raghav aged 26 years and a resident in India, has a total income of ₹ 4,40,000, comprising his salary income and interest on bank fixed deposit of ₹ 40,000. Compute his tax liability for A.Y. 2024-25.

श्री राघव की आयु 26 वर्ष है और वे भारत के निवासी हैं, उनकी कुल आय ₹ 4,40,000 है, जिसमें उनकी वेतन आय और बैंक सावधि जमा ₹ 40,000 पर ब्याज शामिल है। AY 2024-25 के लिए उनकी करदेयता की गणना कीजिए।

Part-B (भाग 'ब')

Attempt any *four* questions.

Each question carries **10** marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न **10** अंक का है।

1. What is the importance of health insurance in personal finance ? What is the process to claim settlement in the insurance policies ?

व्यक्तिगत वित्त में स्वास्थ्य बीमा का क्या महत्त्व है ? बीमा पॉलिसियों में दावा निपटान की सामान्य प्रक्रिया क्या है ?

2. Describe the key characteristics of different asset classes, in which investment may be done by an individual.

विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किया जा सकता है ?

3. Answer the following questions :

(a) If someone promises to give you ₹ 1,000 after 3 years, what is the present value of this amount today if the interest rate is 10% ?

(b) If you invest ₹ 1,000 for 3 years in a savings account that pays 10% interest per year and the interest income is reinvested, what will be the value of your investment at the end of the third year ?

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (a) यदि कोई आपको 3 वर्ष बाद ₹ 1,000 देने का वादा करता है, यदि ब्याज दर 10% है, तो आज इस राशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा ?
- (b) यदि आप ₹ 1,000, 3 वर्षों के लिए एक बचत खाते में निवेश करते हैं जो प्रति वर्ष 10% ब्याज देता है और ब्याज आय को पुनर्निवेशित किया जाता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में आपके निवेश का मूल्य क्या होगा ?

4. Compute portfolio risk and return with equal amount invested in security A and security B.

The risk return characteristics are as mentioned below :

ए और बी में निवेश की गई समान राशि के साथ पोर्टफोलियो जोखिम और रिटर्न की गणना कीजिए।
जोखिम रिटर्न विशेषताएँ नीचे उल्लिखित हैं :

Security	Return	Risk
A	18%	8%
B	12%	5%

5. Write short notes on :

- (a) Net Asset Value (NAV)
- (b) Cess Vs Surcharge.

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी)
- (b) उपकर बनाम अधिभार।